



भारत सरकार

राजकुमारी अमृत कौर नर्सिंग महाविद्यालय

लाजपत नगर, नजदीक मूलचंद मेट्रो स्टेशन,

नई दिल्ली - 110024 दूरभाष: 011-26436788, 26435270

ई-मेल-PRINCIPAL@RAKCON.COM

प्रवेश सूचना

मास्टर ऑफ नर्सिंग पाठ्यक्रम, (बैच 2021-23)

(दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त)

मास्टर ऑफ नर्सिंग (2 वर्षीय) पाठ्यक्रम बैच 2021-2023 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित आवेदन प्रपत्र एवं विवरण पत्रिका महाविद्यालय की वेबसाइट (www.rakcon.com) से 15.04.2021 से 17.05.2021 तक डाउनलोड किये जा सकते हैं और रुपये 550/- का बैंक ड्राफ्ट जो "Principal, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing" के नाम देय हो, के साथ 17.05.2021 सायं 5:00 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट के भुगतान नहीं करने पर डाउनलोड आवेदन प्रपत्र को रद्द कर दिया जाएगा और इससे संबंधित कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी। बैंक ड्राफ्ट की तिथि 15.04.2021 से 17.05.2021 के बीच होनी चाहिए। पिछले वर्षों के आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 17.05.2021 सायं 5.00 बजे तक है।

प्रवेश संबंधी अपेक्षाएं

प्रत्याशी को 55% सफल प्राप्तियों सहित दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.एससी. (आनर्स) परीक्षा 12+4 वर्षीय या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा पास होनी चाहिए एवं किसी संस्था/ विशेष अध्ययन संस्थान अथवा जनस्वास्थ्य एजेंसी से नर्सिंग में एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव की गणना दिनांक 17 मई 2021 तक मानी जाएगी। प्रवेश हेतु चयन विधि का ब्यौरा पाठ्यक्रम की विवरण पत्रिका में दिया गया है। दिनांक 13 जून 2021 (रविवार) को 10:00 बजे प्रवेश पत्र में दिये गये स्थान पर चयन परीक्षा होगी। चयनित प्रार्थियों के नाम विवरण पत्रिका में दी गई तिथि के अनुसार महाविद्यालय के सूचनापट्ट एवं वेबसाइट (www.rakcon.com) पर दिये जाएंगे। इस विषय में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार/ दूरभाष सूचना नहीं दी जाएगी। अंतिम चरण के लिए परामर्श की प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

सूचना: आवेदन प्रपत्र सभी कार्य दिवसों यानि सोमवार से शुक्रवार, राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर समय अपराह्न 2:00 बजे से 5:00 बजे तक जमा किए जाएंगे।